

**SAMPLE PAPER (2024-25)**

**BUSINESS STUDIES**

**व्यावसायिक अध्ययन**

**CLASS: XI**

**CODE: 900**

**[Hindi and English Medium]**

**[Time allowed: 3 Hours]**

**[Maximum Marks: 80]**

**सामान्य निर्देश:**

1. इस प्रश्न पत्र में 35 प्रश्न हैं।
2. प्रत्येक प्रश्न के सामने अंक दिए गए हैं।
3. उत्तर संक्षिप्त और सटीक होने चाहिए।
4. 3 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 से 75 शब्दों में लिखें।
5. 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में लिखें।
6. 6 अंकों वाले प्रश्नों के उत्तर लगभग 200 शब्दों में लिखें।
7. प्रश्नों के सभी भागों को एक साथ हल करें।
8. प्रश्न 24, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 34, 35 में आंतरिक विकल्प उपलब्ध है।

**General Instructions:**

1. This question paper contains 35 questions.
2. Marks are indicated against each question.
3. Answers should be brief and to the point.
4. Answers to the questions carrying 3 marks may be from 50 to 75 words.
5. Answers to the questions carrying 4 marks may be about 150 words.
6. Answers to the questions carrying 6 marks may be about 200 words.
7. Attempt all parts of the questions together.
8. An internal choice is available in Question no. 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35.

1. OTWका मुख्यालय स्थित है:

(1)

(ए) (सिंगापुर)

(बी) (जेनेवा)

(सी) (दिल्ली)

(डी) (लंदन)

The Headquarter of WTO is situated in \_\_\_\_\_:

(A) Singapore

(B) Geneva

(C) Delhi

(D) London

2. डीटीएच सेवाएं प्रदान की जाती हैं:

(1)

(ए) परिवहन कंपनियां

(बी) बैंक

(सी) सेल्यूलर कंपनियां

(डी) इनमें से कोई नहीं

DTH services are provided by\_\_\_\_\_

(A) Transport Companies

(B) Bank

(C) Cellular Companies

(D) None of the above

3. \_\_\_\_\_ के मध्य होने वाले व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय कहते हैं:

(1)

(ए) दो शहरों

(बी) दो जिलों

(सी) दो राज्यों

(डी) दो देशों

Business between \_\_\_\_\_ is called International Business.

(A) Two Cities

(B) Two Districts

(C) Two States

(D) Two Countries

4. जन निक्षेप वह निक्षेप है जो सीधे \_\_\_\_\_ से प्राप्त किए जाते हैं।

) 1)

(ए) जनता

(बी) संचालक

(सी) अंकेक्षक

(डी) स्वामी

Public deposits are the deposits that are raised directly from:

(A) The Public

(B) The Directors

(C) The Auditors

(D) The Owners

5. कृष्ण प्लांट्स एंड एनिमल लिमिटेड वह राम पोल्ट्री फार्म्स लिमिटेड का मुख्य कार्य वनस्पति उगाना व पशु पक्षियों का प्रजनन करना है ताकि उनका उपयोग आगे विभिन्न उत्पादों के लिए किया जा सके। उस उद्योग की श्रेणी का नाम बताइए जिससे यह कंपनियां संबंधित है:

) 1)

- (ए) (जननिक उद्योग
- (बी) (निष्कर्षण उद्योग
- (सी) (निर्माणी उद्योग
- (डी) (रचनात्मक उद्योग

Krishan plants and Animal ltd. and Ram poultry farms ltd. are engaged in breathing plants and animals for their use in further reproduction:

- (A) Genetic Industry
- (B) Extractive Industry
- (C) Manufacturing Industry
- (D) Construction Industry

6. माल की घर पर सुपुर्दगी की सुविधा प्रायः \_\_\_\_\_ के द्वारा दी जाती है ) 1)

- (ए) (थोक व्यापारी
- (बी) (फुटकर व्यापारी
- (सी) (एजेंट
- (डी) (उत्पादक

The facility of 'Home Delivery' of goods is generally provided by

- (A) Wholesaler
- (B) Retailer
- (C) Agent
- (D) Producer

7. ई-व्यवसाय के अंतर्गत \_\_\_\_\_ को सम्मिलित किया जाता है। ) 1)

- (ए) (ई-कॉमर्स
- (बी) (उत्पादन
- (सी) (उत्पादन विकास
- (डी) (उपरोक्त सभी

E-Business includes:

- (A) E-Commerce
- (B) Production
- (C) Production Development

(D) All of the Above

8. भारत में एक ऐसा बैंक है जो वाणिज्यिक बैंकों की गतिविधियों का पर्यवेक्षण, नियंत्रण एवं नियमन करता है। यह सरकार के बैंक के रूप में भी कार्य करता है। यह देश की मुद्रा एवं साख संबंधी नीतियों का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। बैंक का नाम है: (1)

(ए) स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया  
(बी) सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया  
(सी) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया  
(डी) इनमें से कोई नहीं

In case of Small scale enterprises, what can be the maximum limit of investment in plant and machinery? There is a bank in India which supervises, control and regulate the activities of all the commercial banks of the country. It also acts as a Government Bank. It controls and co-ordinates the country's currency and credit policies. Name of the Bank is: (1)

(A) State Bank of India  
(B) Central Bank of India  
(C) Reserve Bank of India  
(D) None of the above

9. "मशीनों के शोर से कानों में बहरापन आना" ----- प्रदूषण की ओर इंगित करता है: (1)

(ए) जल प्रदूषण  
(बी) वायु प्रदूषण  
(सी) ध्वनि प्रदूषण  
(डी) इनमें से कोई नहीं

Deafness in ears due to noise of machines indicates -----pollution.

(A) Water Pollution  
(B) Air Pollution  
(C) Noise Pollution  
(D) None of above

10. 'उत्पादक → थोक व्यापारी → फुटकर व्यापारी → उपभोक्ता' \_\_\_\_\_ का उदाहरण है: (1)

(ए) फुटकर व्यापार  
(बी) थोक व्यापार

(सी) (अप्रत्यक्ष व्यापार)

(डी) (प्रत्यक्ष व्यापार)

\_\_\_\_\_ is the example of 'Manufacturer→Wholesaler→Retailer→Consumer'

(A) Retail Trade

(B) Wholesale Trade

(C) Indirect Trade

(D) Direct Trade

11. जीएसटी का पूर्ण रूप है:

(1)

(ए) (वस्तु विक्रय कर)

(बी) (वस्तु एवं सेवा कर)

(सी) (सकल विक्रय कर)

(डी) (इनमें से कोई नहीं)

Full form of G.S.T. is -----

(A) Good Sales Tax

(B) Goods & Service Tax

(C) Gross Sales Tax

(D) None of These

12. भारत की केंद्रीय सरकार व हरियाणा सरकार के पास एबीसी लिमिटेड का चुकता अंश पूंजी में कम से 26% व 25% हिस्सेदारी है। एक कंपनी में पूंजी के इस तरह से योगदान से स्पष्ट होता है कि सरकार का चुकता अंश पूंजी पर नियंत्रण है एबीसी कंपनी के नाम से स्थापित सार्वजनिक उपक्रम को पहचानिए:

(1)

(ए) (सरकारी कंपनी)

(बी) (वैधानिक निगम)

(सी) (विभागीय उपक्रम)

(डी) (इनमें से कोई नहीं)

The Central Government of India and the Govt. of Haryana held the paid up capital of ABC Limited to the extent of 26% and 25% respectively. From this contribution of capital in a company it is clear that Govt. exercises control over the paid up capital of the company. Identify the Public Enterprise establish in the name of ABC Company:

(A) Government Company

- (B) Statutory Corporation
- (C) Departmental Undertakings
- (D) None of above

13. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

) 1)

अभिकथन(A): एक व्यावसायिक इकाई द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व की अवधारणा ही उसके अस्तित्व एवं विकास के लिए औचित्य प्रदान करती है।

कारण(R): व्यवसाय की उन्नति एवं विकास तभी संभव है जब समाज को लगातार सेवा उपलब्ध होती रहे।

- (ए) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या है।
- (बी) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या नहीं है।
- (सी) अभिकथन(A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
- (डी) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों असत्य है।

Choose one of the correct alternatives given below:

Assertion (A): The assumption of social responsibility by business provides justification for its existence and growth.

Reason (R): The prosperity and growth of business is possible only through continuous service to society.

- (A) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is the correct explanation of Assertion (A).
  - (B) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is not the correct explanation of Assertion (A).
  - (C) Assertion (A) is true but Reason(R) is false.
  - (D) Assertion (A) and Reason(R) both are false.
14. नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए :

) 1)

अभिकथन(A): सभी देश अपनी आवश्यकता की वस्तुओं का भली प्रकार से एवं सस्ते मूल्य पर उत्पादन नहीं कर सकते।

कारण(R): सभी देशों के मध्य प्राकृतिक साधनों का असमान वितरण होता है।

- (ए) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या है।
- (बी) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों सत्य है और R, A कि सही व्याख्या नहीं है।
- (सी) अभिकथन(A) सत्य है लेकिन कारण (R) असत्य है।
- (डी) अभिकथन(A) व कारण (R) दोनों असत्य है।

Choose the correct option from the options given below:

Assertion (A): Not all countries can produce the goods they need at a good and cheap price.

Reason (R): There is unequal distribution of natural resources among all countries.

- (A) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is the correct explanation of Assertion (A).
- (B) Both Assertion (A) and Reason(R) are true and Reason(R) is not the correct explanation of Assertion (A).
- (C) Assertion (A) is true but Reason(R) is false.
- (D) Assertion (A) and Reason(R) both are false.

15. विनियोग तत्व किस बीमा में निहित है? ) 1)

The Investment element lies in which Insurance?

16. सीआईएफ का पूर्ण रूप लिखिए। ) 1)

Write full form of C.I.F.

17. आर्थिक क्रिया का एक उदाहरण दीजिए। ) 1)

Give one example of economic activity.

18. एक सेवा उपक्रम सूक्ष्म इकाई माना जाएगा यदि उसमें यंत्रों में विनियोग \_\_\_\_\_ करोड़ रुपए तक हो तथा वार्षिक टर्नओवर रुपए 5 करोड़ तक हो। ) 1)

If the investment on the Equipment of a service Enterprise is upto \_\_\_\_\_ crore rupees and annual turnover is upto Rs. Five Crore, it will be known as Micro unit. (One crore/Ten Crore)

19. उधर क्रय के लिए विक्रेता से प्राप्त, खरीदे गए माल के विवरण को \_\_\_\_\_ कहते हैं। ) 1)

(बीजक/ कैश मेमो)

The detail of the purchased goods from the seller on credit is called \_\_\_\_\_.  
(Invoice/Cash Memo)

20. फैशन वाली वस्तुओं का व्यवसाय करने में \_\_\_\_\_ जोखिम होता है। ) 1)

(कम/ अधिक)

Doing business of fashion goods involves \_\_\_\_\_ risk. (Less/more)

21. व्यवसाय की कर्मचारियों के प्रति कोई तीन उत्तरदायित्वों का वर्णन करें। ) 3)

Mention any three responsibilities of business towards employees.

22. किन्हीं तीन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ) 3)

Explain briefly any three electronic banking Services.

23. थोक व्यापार से क्या अभिप्राय है? इसकी किन्हीं दो विशेषताओं का वर्णन करें। ) 3)

What do you mean by Wholesale Trade? Give two characteristics.

24. साझेदारी के वैधानिक लक्षणों का वर्णन कीजिए। ) 3)

Discuss statutory characteristics of partnership.

अथवा

OR

एकाकी स्वामित्व के लक्षणों का वर्णन करें।

State the features of Sole Proprietorship.

25. विभागीय उपक्रम से आप क्या समझते हैं? इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। (3)

What do you mean by Departmental Undertaking? Elaborate its features.

अथवा

OR

बहुराष्ट्रीय कंपनी का अर्थ बताइए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

Define MNC's (Multinational Corporation). State its features.

26. स्थानापन्न प्रविवरण को संक्षेप में समझाएं। ) 3)

Explain Statement in lieu of Prospectus.

अथवा

OR

प्रविवरण को परिभाषित कीजिए। प्रविवरण निर्गमन के क्या उद्देश्य हैं?

Define Prospectus. What are the objectives of issuing Prospectus?

27. ई-व्यवसाय से आप क्या समझते हैं? परंपरागत व्यवसाय एवं ई-व्यवसाय में अंतर स्पष्ट कीजिए।

(4)

What do you mean by E-Business? Differentiate between Traditional businesses and E-business.

28. व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्यों का वर्णन करें।

(4)



Describe various social objectives of a business.

29. बीमा के किन्हीं दो सिद्धांतों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। (4)

Describe any two principles of Insurance.

अथवा

OR

इंटरनेट के चार लाभों का वर्णन कीजिए।

Explain three benefits of Internet.

30. घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। (4)

Give difference between Domestic Trade & Foreign Trade.

अथवा

OR

विश्व व्यापार संगठन से क्या अभिप्राय है? इसके दो उद्देश्यों का वर्णन करें।

What do you mean by WTO? Discuss its any two objectives.

31. जन निक्षेप से क्या अभिप्राय है? इसके कोई दो लाभ बताइए। (4)

What do you understand by Public Deposits? Explain its any two advantages.

32. लघु स्तरीय उपक्रम से आप क्या समझते हैं? ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों की क्या भूमिका है? (4)

What is meant by Small Scale Enterprise? Describe the role of small business in rural India?

अथवा

OR

उद्यमिता से आप क्या समझते हैं? उद्यमिता की विशेषताओं का वर्णन करें।

What is meant by Entrepreneurship? Explain any two characteristics of Entrepreneurship.

33. अंशों और ऋण पत्रों को परिभाषित कीजिए और उनमें अंतर लिखिए। (6)

Define and distinguish between shares and debentures.

अथवा

OR

पूर्वाधिकार अंशों के प्रकारों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें।

Elaborate the different types of Preference Shares.

34. पार्षद सीमा नियम आप क्या समझते हैं? इसकी विषय वस्तु की विवेचना विस्तार पूर्वक कीजिए। (6)

What is Memorandum of Association? Elaborate its subject matter in detail.

अथवा

OR

पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम में कोई छः अंतर बताइए।

Differentiate the Memorandum of association and Article of Association with six points.

35. निजी कंपनी व सार्वजनिक कंपनी में कोई छः अंतर बताइए। (6)

Give any six differences between Private Company and Public Company.

अथवा

OR

कंपनी से क्या अभिप्राय है? इसकी किन्हीं चार विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

What do you mean by company? Explain its any four features in detail.



**MARKING SCHEME**  
**CLASS-XI**  
**BUSINESS STUDIES**  
**2024-25**

Que No	Suggested Answers	Marking Scheme
1	(बी) जेनेवा (B) Geneva	1
2	(सी) सेल्यूलर कंपनियां (C) Cellular Companies	1
3	(डी) दो देशों (D) Two Countries	1
4	(ए) जनता (A) The Public	1
5	(ए) जननिक उद्योग (A) Genetic Industry	1
6	(बी) फुटकर व्यापारी (B) Retailer	1
7	(डी) उपरोक्त सभी (D) All of the above	1
8	(सी) रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (C) Reserve Bank of India	1
9	(सी) ध्वनि प्रदूषण C Noise Pollution	1
10	(सी) अप्रत्यक्ष व्यापार (C) Indirect Trade	1
11	(बी) वस्तु एवं सेवा कर (B) Goods & Service Tax	1
12	(ए) सरकारी कंपनी	1



22	<p>इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्वचालित टेलर मशीन (ए.टी.एम.)</li> <li>क्रेडिट कार्ड</li> <li>डेबिट कार्ड</li> </ol> <p>Electronic banking Services:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Automatic Teller Machine (A.T.M.)</li> <li>Credit Card</li> <li>Debit Card</li> </ol>	<p>(1 अंक प्रत्येक बिंदु के लिए)</p> <p>(½ mark for the heading+½ mark for the explanation)</p>
23	<p>थोक व्यापार से अभिप्राय ऐसी व्यापार से है जिसके अंतर्गत वस्तुओं या सेवाओं को बड़ी मात्रा में उत्पादकों से क्रय करके फुटकर विक्रेताओं को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में बेचा जाता है।</p> <p>थोक व्यापार की विशेषताएं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>थोक व्यापारी वस्तुओं को बड़ी मात्रा में खरीदता है।</li> <li>वह कुछ विशेष वस्तुओं में ही व्यापार करता है।</li> </ol> <p>It refers to that type of trade under which goods or services are bought in bulk from producers and are sold in small quantities to the retailers.</p> <p>Features of Wholesale Trade:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Wholesaler purchases goods in large quantities.</li> <li>He deals only in certain items.</li> </ol>	<p>1 mark for definition and 1 mark for each feature</p>
24	<p>साझेदारी के वैधानिक लक्षण:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>साझेदारी को प्रारंभ करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।</li> <li>साझेदारी का व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए।</li> <li>साझेदारी का महत्वपूर्ण लक्षण है व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना।</li> </ol> <p>पिह्सरन्त्राP fo serutaeF yrotutatS:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>A minimum of two persons are required to start a partnership.</li> <li>Partnership business must be legal.</li> <li>An important feature of partnership is that the objective of the business is to earn profit.</li> </ol> <p>एकाकी स्वामित्व के लक्षण:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>एकाकी व्यापार में एक ही व्यक्ति का स्वामित्व होता है।</li> <li>एकाकी व्यापार का स्वामी हि अक्सर प्रबंधक का कार्य भी करता है।</li> <li>एकाकी व्यापारी का दायित्व असीमित होता है।</li> </ol> <p>पिह्सरोतेिरporP eloS fo serutaeF:</p>	<p>(1x 3)</p> <p>(1x 3)</p>



	global level.	
--	---------------	--

26	<p>स्थानापन्न प्रविवरण : प्रविवरण के माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है। यदि एक कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित नहीं करती है तो वह प्रविवरण के स्थान पर स्थानापन्न प्रविवरण निर्गमित करती है</p> <p>स्थानापन्न प्रविवरण को प्रविवरण के स्थान पर रजिस्टार आफ कंपनी के पास जमा करवाया जाता है इसमें उन सभी बातों का उल्लेख होता है जो कि प्रविवरण में होती है</p> <p>Statement in Lieu of Prospectus: A prospectus is a legal document that a corporation publishes to invite the public to subscribe to its shares and debentures. When a company does not offer its securities for public subscription, it issues a statement in lieu of prospectus.</p> <p>When a firm does not submit a prospectus to the public in order to invite them to subscribe for shares, a Statement in Lieu of Prospectus is submitted with the Registrar of Companies ( ROC ). It's comparable to a prospectus, except it's only a few pages long.</p> <p>प्रविवरण से अभिप्राय उसे प्रलेख से है जिसमें निर्गमन से संबंधित सभी सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है।</p> <p>प्रविवरण के उद्देश्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना ।</li> <li>2. उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है।</li> <li>3. इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदाई है।</li> </ol> <p>सूचनाओं का उल्लेख होता है तथा जिसके माध्यम से कंपनी जनता को अंश, ऋण पत्र आदि के लिए आवेदन करने हेतु आमंत्रित करती है।</p> <p>प्रविवरण के उद्देश्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित करना ।</li> <li>2. उन शर्तों का ब्यौरा देना जिन पर जनता को अंशों व ऋणपत्रों को खरीदने के लिए आमंत्रित करना है।</li> <li>3. इस आशय की घोषणा करना कि प्रविवरण में लिखी बातों के लिए कंपनी के संचालक उत्तरदाई है।</li> </ol>	<p>3 marks</p> <p>1 mark for definition and 1 mark for each point</p>
27	<p>ई-व्यवसाय : ई-व्यवसाय से अभिप्राय सभी औद्योगिक तथा वाणिज्य क्रियो को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पूरा करना है।</p> <p>E- व्यापार : ई-व्यवसाय से अभिप्राय सभी औद्योगिक तथा वाणिज्य क्रियो को कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से पूरा करना है।</p>	<p>1 mark for definition and 1 mark</p>



	<p>retupmoc hguorht seitivitca laicremmoc for each point</p> <p>krowten(tenretnI).</p> <p>ई-व्यवसाय एवं पारंपरिक व्यवसाय में अंतर</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>स्थापना</li> <li>शारीरिक उपस्थिति</li> <li>स्थापना की लागत</li> <li>व्यवहार में लगने वाला समय आदि के आधार पर अंतर</li> </ol> <p>Differences between e-business and traditional business:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Establishment</li> <li>24x7 availability</li> <li>Physical presence</li> <li>Cost of establishment</li> </ol> <p>iv. Difference in transaction time etc.</p>	
28	<p>व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>उच्च किस्म की वस्तुएं उचित मूल्य पर</li> <li>समाज के विकास में योगदान</li> <li>विनियोग को को पर्याप्त लाभ</li> <li>रोजगार उपलब्ध कराना</li> </ol> <p>Social objectives of business:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>High quality goods at fair prices</li> <li>Contribution to community Development</li> <li>Fair return to Investors</li> <li>Providing Employment</li> </ol>	<p>(1x4)</p> <p>(1 अंक प्रत्येक बिंदु के लिए)</p> <p>½ Mark for heading, ½ mark for explanation</p>





31	<p>सार्वजनिक जमा - जब संगठन सीधे जनता से धन जमा करते हैं तो इसे सार्वजनिक जमा कहते हैं।</p> <p>सार्वजनिक जमा के निम्न लाभ हैं-</p> <p>(क) जमा प्राप्ति की प्रक्रिया सरल है एवं किसी प्रकार की प्रतिबंधन शर्तें नहीं होतीं जैसी कि साधारणतः ऋण अनुबंधों में होती हैं।</p> <p>(ख) सार्वजनिक जमा पर किया गया व्यय बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण की लागत से कम होता है।</p> <p>Public Deposits The deposits that are raised by organisations directly from the public are known as public deposits.</p> <p>Merits :The merits of public deposits are:</p> <p>(i) The procedure of obtaining deposits is simple and does not contain restrictive conditions as are generally there in a loan agreement;</p> <p>(ii) (ii) Cost of public deposits is generally lower than the cost of borrowings from banks and financial institutions;</p>	2 marks for definition and 1 mark for each point
32	<p>लघु व्यवसाय का अभिप्राय ऐसी व्यवसाय से है जिसका स्वामित्व संचालन स्वतंत्र रूप से होता है जिसमें प्लांट एवं मशीनरी या उपकरणों में विनियोग की अधिकतम सीमा एक करोड़ से अधिक और 10 करोड़ रुपए तक है और वार्षिक टर्नओवर की अधिकतम सीमा 5 करोड़ से अधिक तथा 50 करोड़ रुपए तक है</p> <p>ग्रामीण भारत में छोटे व्यवसायों की भूमिका:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. अधिक रोजगार</li> <li>2. आर्थिक मजबूती</li> <li>3. कारीगरों के लिए अवसर</li> <li>4. जीवन स्तर में सुधार</li> </ol> <p>Small Business means a business that is independently owned &amp; operated, In which the maximum limit of Investment in Plant &amp; Machinery or Equipment is more than Rs.1 Crore and up to Rs. 10 Crore. And the maximum limit of annual turnover is more than Rs. 5 Crore and up to Rs. 50 crore.</p> <p>Role of Small scale Business in India:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. More Employment</li> <li>2. Economic Strength</li> <li>3. Opportunity for Artisan</li> </ol>	2 marks for definition and 1 mark for each point ½ for heading and ½ for explanation

	<p>4. Promotion of standard of living</p> <p>उद्यमिता किसी अन्य आर्थिक गतिविधि को आगे बढ़ाने से अलग <sup>or</sup> अपना व्यवसाय स्थापित करने की प्रक्रिया है, चाहे वह रोज़गार हो या किसी पेशे को चलाना हो।</p> <p>उद्यमिता की विशेषताएँ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. व्यवस्थित गतिविधि— उद्यमिता एक रहस्यमय उपहार या आकर्षण और कुछ ऐसा नहीं है जो संयोग से होता है! यह एक व्यवस्थित, चरण-दर-चरण और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि है।</li> <li>2. वैध और उद्देश्यपूर्ण गतिविधि— उद्यमिता का उद्देश्य वैध व्यवसाय है।</li> <li>3. नवाचार— फर्म के दृष्टिकोण से, नवाचार लागत कम करने वाला या राजस्व बढ़ाने वाला हो सकता है।</li> <li>4. जोखिम उठाना— सामान्यता यह माना जाता है कि उद्यमी उच्च जोखिम उठाते हैं।</li> </ol> <p>Entrepreneurship is the process of setting up one's own business as distinct from pursuing any other economic activity, be it employment or practicing some profession.</p> <p>Features of Entrepreneurship:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Systematic Activity: Entrepreneurship is not a mysterious gift or charm and something that happens by chance! It is a systematic.</li> <li>2. Lawful and Purposeful Activity: The object of entrepreneurship is lawful business.</li> <li>3. Innovation: From the point of view of the firm, innovation may be cost saving or revenue-enhancing.</li> <li>4. Risk-taking: It is generally believed that entrepreneurs take high risks.</li> </ol>	<p>2mark for definition and 1 mark for each point</p>
33	<p>अंश कंपनी की पूंजी का भाग होते हैं जो कंपनी में स्वामित्व का प्रमाण पत्र होते हैं। ऋणपत्र कंपनी की मुद्रा के अंतर्गत निर्मित किया गया ऋण की स्वीकृति का लिखित निर्माण होता है।</p> <p>अंश एवं ऋणपत्र में अंतर:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. कंपनी से संबंध</li> <li>ii. प्रतिफल</li> <li>iii. संबंध में भाग</li> <li>iv. कर लाभ</li> <li>v. वापसी का क्रम आदि के आधार पर कोई पांच अंतर</li> </ol>	<p>(1+5)</p> <p>any five differences</p>

	<p>A share form part of the capital of a company and is a certificate of ownership in the company. A debenture is a written instrument of acceptance of a loan drawn up under the common seal of the company.</p> <p>Difference between share and debenture:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Relationship with company</li> <li>Return/Reward</li> <li>Participation in management</li> <li>Tax benefits</li> <li>Refund of amount invested etc.</li> </ol> <p style="text-align: center;">or</p> <p>पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>सचंयी एवं असचंयी— जिन पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश का किसी वर्ष में भुगतान नहीं किया जाता और अदत्त लाभांश भविष्य के वर्षों के लिए जुड़ता जाता है, उन्हें सचयं पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरी ओर, असचंयी पूर्वाधिकार अंशों पर यदि किसी वर्ष लाभांश नहीं दिया जाता तो यह आगामी वर्षों के लिए जुड़ता नहीं है।</li> <li>भागीदारी एवं अभागीदारी— जिन पूर्वाधिकार अंशों को समता अशधारकों को एक निश्चित दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात कंपनी के अधिक लाभ में भागीदारी का अधिकार होता है, उन्हें भागीदारी पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। अभागीदारी पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको कंपनी के लाभों में इस प्रकार की भागीदारी का अधिकार नहीं होता।</li> <li>परिवर्तनीय एवं अपरिवर्तनीय— जिन पूर्वाधिकार अंशों को एक निश्चित समय में समता अंशों में परिवर्तित किया जा सकता है, उन्हें परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश कहते हैं। दूसरी ओर, गैर-परिवर्तनीय अंश समता अंशों में परिवर्तित नहीं किए जा सकते।</li> </ol> <p>Types of Preference Shares</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Cumulative and Non-Cumulative: The preference shares which enjoy the right to accumulate unpaid dividends in the future years, in case the same is not paid during a year are known as cumulative preference shares. On the other hand, on non-cumulative shares, dividend is not accumulated if it is not paid in a particular year.</li> <li>Participating and Non-Participating: Preference shares which have a right to participate in the further surplus of a company shares which after dividend at a certain rate has been paid on equity shares are called</li> </ol>	<p>2 marks for each point</p>
--	---	-------------------------------

	<p>participating preference shares. The non-participating preference is such which do not enjoy such rights of participation in the profits of the company.</p> <p>3. Convertible and Non-Convertible: Preference shares that can be converted into equity shares within a specified period of time are known as convertible preference shares. On the other hand, non-convertible shares are such that cannot be converted into equity shares.</p>	
34	<p>पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर कहा जाता है। यह कंपनी का मुख्य प्रलेख होता है जिसके बिना कंपनी का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। पार्षद सीमा नियम में छह प्रमुख वाक्य होते हैं:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>नाम वाक्य</li> <li>स्थान वाक्य</li> <li>उद्देश्य वाक्य</li> <li>दायित्व वाक्य</li> <li>पूंजी वाक्य</li> <li>संघ एवं हस्ताक्षर वाक्य</li> </ol> <p>Memorandum of Association is called as the Charter of the Company. This is the main document of the company without which the registration of the company is not possible. M/A consists of six key clauses:</p>	<p>(1+5)  <math>\frac{1}{2}</math> mark for each point &amp;  <math>\frac{1}{2}</math> mark for explanation</p>

- i. Name Clause
- ii. Place Clause
- iii. Object Clause
- iv. Liability Clause
- v. Capital Clause

Association & Subscription Clause

अथवा

Or

पार्षद सीमा नियम एवं पार्षद अंतर नियम में अंतर

आधार	पार्षद सीमा नियम	पार्षद अंतर नियम
उद्देश्य	सीमा नियम कंपनी स्थापना के उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं।	अंतर नियम कंपनी के आंतरिक प्रबंध के नियम होते हैं।
स्थिति	यह कंपनी का मुख्य प्रलेख है तथा कंपनी अधिनियम के अधीन है।	यह सहायक प्रलेख है तथा सीमा नियम एवं कंपनी अधिनियम के दोनों के अधीन है।
संबंध	सीमा नियम कंपनी के बाहरी दुनिया से संबंध निश्चित करता है।	अंतर नियम कंपनी तथा उसके सदस्यों के बीच आंतरिक संबंधों को परिभाषित करता है।
बाध्यता	सीमा नियम के क्षेत्र के बाहर के कार्य अमान्य होते हैं एवं सभी सदस्यों के एक मत से भी अनमोदित नहीं हो सकता।	अंतर नियम के बाहर के कार्यों की अंशधारी अनमोदित कर सकते हैं।
आवश्यकता	प्रत्येक कंपनी को सीमा नियम जमा कराना अनिवार्य है।	अंतर नियमों को जमा कराना अनिवार्य नहीं है।
परिवर्तन	पार्षद सीमा नियम को आसानी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता।	पार्षद अंतर नियम में विशेष प्रस्ताव द्वारा आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है।

1 mark for  
each  
difference

Difference between Memorandum of Association and Articles of Association



Basis of Difference	Memorandum of Association	Articles of Association
Objectives	Memorandum of Association defines the objects for which the company is formed.	Articles of Association are rules of internal management of the company. They indicate how the objectives of the company are to be achieved.
Position	This is the main document of the company and is subordinate to the Companies Act.	This is a subsidiary document and is subordinate to both the Memorandum of Association and the Companies Act.
Relationship	Memorandum of Association defines the relationship of the company with outsiders.	Articles define the relationship of the members and the company.
Validity	Acts beyond the Memorandum of Association are invalid and cannot be ratified even by a unanimous vote of the members.	Acts which are beyond Articles can be ratified by the members, provided they do not violate the Memorandum.
Necessity	Every company has to file a	It is not compulsory for

	Memorandum of Association.	a public ltd. company to file Articles of Association. It may adopt Table F of The Companies Act, 2013
Alteration	Memorandum of association cannot be easily altered	Article of association can be altered by a special resolution

35	<div data-bbox="313 222 1206 741"> <p>निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर</p> <table> <tr> <td>आधार</td><td>सार्वजनिक कंपनी</td><td>निजी कंपनी</td></tr> <tr> <td>सदस्य</td><td>न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नहीं</td><td>न्यूनतम 2, अधिकतम 200</td></tr> <tr> <td>निदेशकों की न्यूनतम संख्या</td><td>3</td><td>2</td></tr> <tr> <td>सदस्यों की अनुक्रमणिका</td><td>अनिवार्य है।</td><td>अनिवार्य नहीं है।</td></tr> <tr> <td>अशों का हस्तांतरण</td><td>हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।</td><td>हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।</td></tr> <tr> <td>अशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रण</td><td>अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित कर सकती है।</td><td>अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="313 783 1206 1568"> <p>Difference between a Public Company and Private Company</p> <table> <tr> <td>Basis</td><td>Public company</td><td>Private company</td></tr> <tr> <td>Members</td><td>Minimum - 7 Maximum - unlimited</td><td>Minimum - 2 Maximum - 200</td></tr> <tr> <td>Minimum number of directors</td><td>Three</td><td>Two</td></tr> <tr> <td>Index of members</td><td>Compulsory</td><td>Not compulsory</td></tr> <tr> <td>Transfer of shares</td><td>No restriction</td><td>Restriction on transfer</td></tr> <tr> <td>Invitation to public to subscribe to shares</td><td>Can invite the public to subscribe to its shares or debentures</td><td>Cannot invite the public to subscribe to its securities</td></tr> </table> </div> <div data-bbox="313 1638 1206 1938"> <p>अथवा</p> <p>Or</p> <p>कंपनी अधिनियम द्वारा निर्मित एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका अलग अस्तित्व होता है इसका स्थाई अस्तित्व होता है और इसकी एक सार्वमुद्रा होती है</p> <p>कंपनी की विशेषताएं:</p> <p><u>अविच्छिन्न उत्तराधिकार:</u></p> <p>कंपनी का जीवन व्यवसायिक संगठन के सभी प्रारूपों में सबसे अधिक</p> </div>	आधार	सार्वजनिक कंपनी	निजी कंपनी	सदस्य	न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नहीं	न्यूनतम 2, अधिकतम 200	निदेशकों की न्यूनतम संख्या	3	2	सदस्यों की अनुक्रमणिका	अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।	अशों का हस्तांतरण	हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।	हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।	अशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रण	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित कर सकती है।	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।	Basis	Public company	Private company	Members	Minimum - 7 Maximum - unlimited	Minimum - 2 Maximum - 200	Minimum number of directors	Three	Two	Index of members	Compulsory	Not compulsory	Transfer of shares	No restriction	Restriction on transfer	Invitation to public to subscribe to shares	Can invite the public to subscribe to its shares or debentures	Cannot invite the public to subscribe to its securities	<div data-bbox="1230 310 1359 438"> <p>1 Mark for each point</p> </div>
आधार	सार्वजनिक कंपनी	निजी कंपनी																																				
सदस्य	न्यूनतम 7, अधिकतम कोई सीमा नहीं	न्यूनतम 2, अधिकतम 200																																				
निदेशकों की न्यूनतम संख्या	3	2																																				
सदस्यों की अनुक्रमणिका	अनिवार्य है।	अनिवार्य नहीं है।																																				
अशों का हस्तांतरण	हस्तांतरण पर कोई प्रतिबंध नहीं है।	हस्तांतरण पर प्रतिबंध होता है।																																				
अशों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रण	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय हेतु जनता को आमंत्रित कर सकती है।	अशों एवं ऋणपत्रों के क्रय के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती।																																				
Basis	Public company	Private company																																				
Members	Minimum - 7 Maximum - unlimited	Minimum - 2 Maximum - 200																																				
Minimum number of directors	Three	Two																																				
Index of members	Compulsory	Not compulsory																																				
Transfer of shares	No restriction	Restriction on transfer																																				
Invitation to public to subscribe to shares	Can invite the public to subscribe to its shares or debentures	Cannot invite the public to subscribe to its securities																																				

<p>स्थायी होता है। इस पर सदस्यों के आने या जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैधानिक व्यक्ति होने के कारण कंपनी का समापन केवल अधिनियम के द्वारा ही हो सकता है। कंपनी के अस्तित्व के बारे में कहा गया है कि:</p> <p style="text-align: center;">“Members may come, Members may go, But the Company goes on forever”</p> <p><u>सीमित दायित्व:</u>  कंपनी में अंशधारियों का दायित्व उनके द्वारा खरीदे गए अंशों के मूल्य तक सीमित होता है। केवल गारंटी द्वारा सीमित या असीमित दायित्व वाले कंपनी में ऐसा नहीं होता। कंपनी को बहुत अधिक हानि होने की दशा में भी अंशधारियों से केवल उनके अंशों की बकाया राशि ही मंगवाई जा सकती है।</p> <p><u>कृत्रिम व्यक्ति:</u>  कंपनी को कृत्रिम वैधानिक व्यक्ति माना जाता है क्योंकि कंपनी व्यक्तियों की भांति प्रलेखों पर हस्ताक्षर कर सकती है और अपने नाम में संपत्ति रख सकते हैं। लेकिन मनुष्यों की भांति यह जीवित नहीं रहती इसलिए इसे कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं।</p> <p><u>पृथक अस्तित्व:</u>  कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्यों से अलग होता है। कंपनी अपने सदस्यों पर दावा भी प्रस्तुत कर सकती है। रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी को पृथक वैधानिक अस्तित्व मिल जाता है।</p> <p style="text-align: center;">gnivah wal yb detaerc nosrep    laicifitra na si ynapmoC  dna noisseccus lautepprep a htiw ytitne legel etarpes  laes nommoc.</p> <p><u>:ynapmoC fo serutaeF</u></p> <p><b>Perpetual Succession:</b>  The life of a company is the most permanent of all forms of business organization. It is not affected by the entering or leaving of members. Being a legal person, the company can be wound up only by an act. The existence of the company is said to have:</p> <p style="text-align: center;">“Members may come, Members may go, But the Company goes on forever”</p> <p><b>Limited liability:</b>  The liability of the shareholders in the company is limited to the value of the shares purchased by them. Except in the case of a company limited by guaranteed or unlimited liability company. Even in the case of huge loss to the company, only the outstanding amount of their shares can be called from the shareholders.</p>	<p>(2+4)</p>
---	--------------

**Artificial person:**

A company is considered to be an artificial legal person as the company can sign documents and hold property in its name like a person. But it does not survive like humans; hence it is called an artificial person.

**Separate existence:**

The existence of a company is separate from that of its members. The company can also file a case against its members. After registration the company gets a separate legal entity.

